

- 1. Prime Minister Narendra Modi has been conferred with "Order of Saint Andrew the Apostle" the highest civilian award of Russia for his contribution on bilateral ties.**
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों पर उनके योगदान के लिए रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल" से सम्मानित किया गया है।
- 2. A new, state-of-the-art Virtual Reality Centre (VRC) has been inaugurated by Navy chief Admiral Sunil Lanba that would provide a "major boost" to indigenous warship design capabilities of the Navy.**
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने एक नये और अत्याधुनिक वर्चुअल रिएलिटी सेंटर (वीआरसी) का उद्घाटन किया, जो नौसेना की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमता में बड़ा इजाफा करेगा।
- 3. Renowned Hindi poet Pradeep Choubey died. He was 70. He was known for his humorous poetry.**
प्रख्यात कवि प्रदीप चौबे का निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। वह अपनी हास्य रचनाओं के लिए जाने जाते थे।
- 4. Former Pakistani Captain Inzamam-ul-Haq and South Africa's Wicketkeeper Mark Boucher were inducted as the Honorary Life Members of the Marylebone Cricket Club (MCC).**
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक और दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) की मानद आजीवन सदस्यता दी गयी है।
- 5. PayU, an online payment service provider, acquired US-based technology company Wibmo that operates in digital payment security for \$70 million.**
डिजिटल भुगतान की सेवा देने वाली कंपनी पेयू ने भारत में काम करने वाली अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनी विबमो का 7 करोड़ डॉलर (करीब 484 करोड़ रुपये) में अधिग्रहण किया है।
- 6. Alice G. Vaidyan has been awarded the Freedom of the City of London in recognition of her work to promote insurance ties between India and the UK.**
एलीस जी वैद्यन को भारत और ब्रिटेन के बीच बीमा से जुड़े रिश्तों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- 7. India will be the Guest of Honour country at the Abu Dhabi International Book Fair, ADIBF 2019.**
भारत, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले, एडीआईबीएफ 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा।
- 8. Professor Najma Akhtar has been appointed as the first woman vice-chancellor of Jamia Millia Islamia University.**
प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 9. Prasar Bharati Chairman, A Surya Prakash released a booklet of the 'Selected speeches of Dr Bhimrao Ambedkar in the Constituent Assembly', in New Delhi.**
प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने नई दिल्ली में 'संविधान सभा में डॉ भीमराव अंबेडकर के चयनित भाषणों' की एक पुस्तिका जारी की।
- 10. National Mission for Clean Ganga (NMCG) was awarded the distinction of "Public Water Agency of the Year" by Global Water Intelligence at the Global Water Summit in London.**
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) को लंदन में ग्लोबल वॉटर समिट में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा "पब्लिक वॉटर एजेंसी ऑफ द ईयर" के सम्मान से सम्मानित किया गया।
- 11. 21st ASEAN-India Senior Officials' Meeting (SOM) was held at New Delhi.**
आसियान-भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की 21 वीं बैठक (एसओएम) नई दिल्ली में आयोजित की गई।



Write us -
content@mahendras.org

 Mahendras'TM